

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937

No. 796]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/ AGRAHAYANA 26, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 17 दिसंबर, 2015

सं.फेमा. 360/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन)

विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 983 (अ).- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में, अनुसूची 5 में,

(ए) पैराग्राफ 1 में, खंड (एल) के बाद और मौजूदा परंतु से पहले, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

"(एम) भारतीय रिज़र्व बैंक और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें"

(बी) पैराग्राफ 1बी में, खंड (iii) में, उप-खंड (के) के बाद, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

"(एल) भारतीय रिज़र्व बैंक और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें"

(सी) पैराग्राफ 1सी में, खंड (1) में, उप-खंड (एल) के बाद, निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

"(एम) भारतीय रिज़र्व बैंक और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें"

[सं. 10/07/ईसीबी-2014]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-

मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को सा.का.नि. सं.406 (अ), भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013

सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
 सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
 सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014

सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
 सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
 सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
 सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
 सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
 सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
 सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
 सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th December, 2015

No. FEMA.360/2015-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 983(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000), in Schedule 5,

(A) In paragraph 1, after clause (l) and before the existing proviso, the following shall be inserted, namely:

“(m) security receipts issued by securitization companies subject to conditions as specified by Reserve Bank of India and/or Securities and Exchange Board of India”

(B) In paragraph 1B, in clause (iii), after sub-clause (k), the following shall be inserted, namely:

“(l) security receipts issued by securitization companies subject to conditions as specified by Reserve Bank of India and/or Securities and Exchange Board of India.”

(C) In paragraph 1C, in clause (l), after sub-clause (l), the following shall be inserted, namely:

“(m) security receipts issued by securitization companies subject to conditions as specified by Reserve Bank of India and/or Securities and Exchange Board of India.”

[No. 10/07/ECB-2014]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406 (E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013	G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013	